



# पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 17.11.2020

**1-थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा चोरी के सामान के साथ के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एलुमिनियम की प्लेटे, लोहे के पाइप व एक अवैध चाकू बरामद।**

दिनांक 17.11.2020 को थाना थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा चोरी के सामान के साथ के 02 अभियुक्त 1. शाहिद पुत्र बाबू निवासी शिकारपुर अड्डा टांडा थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर 2. मिर्वा पुत्र महमूद निवासी ग्राम अग्रौला थाना हसनपुर जिला अमरोहा को थाना क्षेत्र के ग्राम गढी समस्तीपुर बारात घर के पास सेक्टर 150 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 16 प्लेटे एल्युमिनियम की ,16 पाइप लोहे के ,व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. शाहिद पुत्र बाबू निवासी शिकारपुर अड्डा टांडा थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर।
2. मिर्वा पुत्र महमूद निवासी ग्राम अग्रौला थाना हसनपुर जिला अमरोहा।

### **अपराधिक इतिहास का विवरण-**

1. मु0अ0स0 230/2020 धारा 457, 380 भादवि थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 384/2020 धारा 380, 411 भादवि थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 385/2020 धारा 380,411,414 भादवि थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0 386/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 16 प्लेटे एल्युमिनियम की

2. 16 पाइप लोहे के

3. 01 अवैध चाकू

**2- थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।**

दिनांक 16.11.2020 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त बन्टी पुत्र हरीश चन्द्र निवासी ग्राम भरतरी थाना गभाना जनपद अलीगढ़ को थाना क्षेत्र के रियान गोल चक्कर से 200 मीटर दूर सर्विस रोड पर लेवर गोलचक्कर की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे 3 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

**अभियुक्त का विवरण-**

बन्टी पुत्र हरीश चन्द्र निवासी ग्राम भरतरी थाना गभाना जनपद अलीगढ़

**पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0- 731/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर

**बरामदगी का विवरण-**

3 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा

### **प्रेस विज्ञप्ति**

दिनांक 17.11.2020 को कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर भ्रमणशील रहते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों व महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा परिचौक से नोएडा, दिल्ली, आगरा जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें अनजान वाहनों में सफर व लिफ्ट लेने से बचने के लिए जागरूक किया गया, साथ ही कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत भीड़भाड़, संवेदनशील व संदिग्ध स्थानों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई।